



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श०)

(सं० पटना 65)

पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2014

सं० 22 नि० सि० (डि०)-14-13/2013/2100—माननीय विधायक श्री दिनेश कुमार सिंह, सं० वि० सं० के परिवाद में वर्णित भोजपुर जिले के विपिनडीह, सेन्दहा, बलिगॉव एवं नोनार स्थलों पर कराए जा रहे रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्रियों का उपयोग कर निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोपों की जांच उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा कराई गई। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि बिहिया शाखा नहर अन्तर्गत सेन्दहा एवं नोनार स्थल पर संरचना कार्य में मोर्टार में सिमेंट की मात्रा मानक से कम है। उक्त अनियमितता के लिए श्री सुखदेव राम (आई० डी०-4483), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से विभागीय पत्रांक 1389 दिनांक 21.11.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से प्राप्त स्पष्टीकरण में उनके द्वारा बताया गया कि बलिगॉव एवं सेन्दहा स्थल पर एक ही संवेदक से कार्य कराया गया है लेकिन बलिगॉव में कार्य का रिपोर्ट ठीक है जबकि सेन्दहा में मोर्टार में सिमेंट कम पाया गया है। क्षेत्रीय गुण नियंत्रण द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, उसके अनुसार कार्य अच्छा है। सेन्दहा एवं नोनार स्थल पर B/W के अन्तिम चरण में मजदूरों द्वारा Hand Mixing से मोर्टार तैयार किया गया था जिसके कारण संभव है कि जिस स्थल से सैम्पल लिया गया वहाँ सिमेंट की मात्रा कम हो गई हो लेकिन इससे पूरे कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं हुई है अन्यथा सुरक्षात्मक दीवाल टिक नहीं पाता। योजना कार्य सफल है तथा उस पर खरीफ पटवन भी किया गया है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है।

श्री सुखदेव राम (आई० डी०-4483), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि उड़नदस्ता अंचल की जांच में कुछ स्थलों पर पी० सी० सी० और प्लास्टर की गुणवत्ता खराब है। भोजपुर जिला के सेन्दहा एवं नोनार स्थलों पर साईफन के कार्य में विशिष्टि के निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से जांच फल अधिक पाया गया जिसके लिए श्री सुखदेव राम (आई० डी०-4483), कार्यपालक अभियन्ता दोषी है।

अतः निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए सैम्पल यथा— सेन्दहा स्थल, नोनार स्थल एवं तदनुरूप इन दोनों स्थलों पर साईफन के कार्य में विशिष्टि के निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक जांच फल पाए जाने के आधार पर श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को दोषी पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-1161 दिनांक 25.8.14 द्वारा उनके विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया:—

(i) निन्दन वर्ष 2013-14

(ii) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दण्ड के आलोक में श्री राम द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाय क्योंकि उड़नदस्ता दल के द्वारा दिया गया परिणाम संतोषप्रद है तथा पी0 सी0 सी0 कार्य भी अनुज्ञेयता सीमा के पास ही है। कार्य स्थल पर कार्य बन्द था तथा स्थल पर पड़े कुछ मोटार को उठाकर उसकी जाँच की गई थी। मोटार मजदूरों द्वारा मिलाकर लगाया जाता है। वैसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता को भी दोषी ठहराना उचित नहीं है। उक्त योजना कारगर है तथा उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं एवं स्थल भी सुरक्षित है। अन्त में पुनः श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा द्वारा पूर्व में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री राम से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि उनके द्वारा बार-बार पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है जबकि उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त उन्हें दोषी पाते हुए उक्त दण्ड संसूचित किया गया है। उनके द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य या साक्ष्य नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों का प्रतिवाद हो सके।

अतएव श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरान्त इसे अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

अतः श्री सुखदेव राम (आई0डी0-4483), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-1161 दिनांक 25.08.2014 के आलोक में समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 65-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>